



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड—3 उप-खण्ड (i)  
PART II—Section —3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373 ]  
No. 373]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1995/भाद्र 22, 1917  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1995/BHADRA 22, 1917

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

सांका० 634 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों को संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1995 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) राज्य सरकार, किसी खनन पट्टा के अनुदान के लिए आवेदन के प्राप्त होने पर, उक्त प्रयोजन के लिए प्रमित क्षेत्र अनुदत्त करने का विनिश्चय करेगी और ऐसा विनिश्चय आवेदक को संसूचित करेगी । आवेदक, राज्य सरकार से अनुदत्त किए जाने वाले प्रमित क्षेत्र संबंधी संसूचना के प्राप्त होने पर, छह मास की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो राज्य सरकार अनुज्ञात करे, के भीतर एक खनन योजना केन्द्रीय सरकार को उसके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा । आवेदक, केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना को उस क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।”

[फाइल सं० 7(2)/95-एम् 6]

एम् ७०० शर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी

मूल नियम में पहले संशोधन किया गया था । संशोधन से संबंधित अधिसूचना की सूची संलग्न है ।

## सूची

1. अधिसूचना संख्या 1/34/71-एम 6 दिनांक 21-5-1973
2. अधिसूचना संख्या एम 2-152(37)/62 दिनांक 22-7-1963
3. अधिसूचना संख्या 1/34/68-एम 2 दिनांक 23-5-1970
4. अधिसूचना संख्या 1(26)/71-एम 6 दिनांक 14-2-1972
5. अधिसूचना संख्या 1(2)/68-एम 2 दिनांक 23-2-1968
6. अधिसूचना संख्या 1(3)/68-एम 2 दिनांक 30-3-1968
7. अधिसूचना संख्या एम 2-169(44)/61 दिनांक 7-9-1961
8. अधिसूचना संख्या 1(22)/62-एम 2 दिनांक 18-7-1963
9. अधिसूचना संख्या 1(74)/75-एम 6 दिनांक 2-5-1979
10. अधिसूचना संख्या 1(3)68-एम 6 दिनांक 17-1-1968
11. अधिसूचना संख्या 1(33)/67-एम 6 (पार्ट 2) दिनांक 22-7-1971
12. अधिसूचना संख्या एम 2-169(44)/61 दिनांक 6-9-1963
13. अधिसूचना संख्या 1(3)/71-एम 6 दिनांक 6-9-1971
14. अधिसूचना संख्या 1(51)/65-एम 2 दिनांक 26-2-1969
15. अधिसूचना संख्या एम 2-152(11)/62 दिनांक 6-5-1963
16. अधिसूचना संख्या 3(51)/74-एम 6 दिनांक 16-1-1980
17. अधिसूचना संख्या एम 2-152(58)/61 दिनांक 30-4-1963
18. अधिसूचना संख्या एम 2-152(33)/60 दिनांक 24-9-1963
19. अधिसूचना संख्या 1(26)/66-एम 6 दिनांक 4-3-1967
20. अधिसूचना संख्या 7(4)/85-एम 6 दिनांक 22-9-86
21. अधिसूचना संख्या 7(1)/86-एम 6 दिनांक 10-2-1987
22. अधिसूचना संख्या 19(9)/86-एम 6 दिनांक 14-10-1987
23. अधिसूचना संख्या 6(3)/87-एम 6 दिनांक 21-12-1987
24. अधिसूचना संख्या 7(2)/87-एम 6 दिनांक 13-4-1988
25. अधिसूचना संख्या 7(1)/89-एम 6 दिनांक 19-10-1989
26. अधिसूचना संख्या 7(1)/90-एम 6 दिनांक 1-4-1991
27. अधिसूचना संख्या 7(3)/92-एम 6 दिनांक 7-1-1993
28. अधिसूचना संख्या 7(1)/93-एम 6 दिनांक 30-3-1994
29. अधिसूचना संख्या 1(7)/93-एम 6 दिनांक 27-9-1994

## MINISTRY OF MINES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1995

**G.S.R. 634 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1995.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 22 of the Mineral Concession Rules, 1960, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) On receipt of the application for the grant of a mining lease the State Government shall take decision to grant precise area for the said purpose and communicate such decision to the applicant. On receipt of communication from the State Government of the precise area to be granted, the applicant shall submit a mining plan, within a period of six months or such other period as may be allowed by the State Government, to the Central Government for its approval. The applicant shall submit the mining plan, duly approved by the Central Government or by an officer duly authorised by the Central Government, to the State Government to grant mining lease over that area."

[F. No. 7(2)/95-M. VI]  
S. D. SHARMA, Jt. Secy.

FOOT NOTE :

The principal rule was amended earlier. A list of such amending notifications is enclosed.

## THE LIST

1. Notification No. 1/34/71-M. 6 dt. 21-5-73
2. Notification No. M. II-152(37)/62 dt. 22-7-63
3. Notification No. 1(34)/68-M. II dt. 23-5-70
4. Notification No. 1(26)/71-M. VI dt. 14-2-72
5. Notification No. 1(2)/68-M. II 23-2-68
6. Notification No. 1(3)/68-M. II dt. 30-3-68
7. Notification No. M. II-169(44)/61 dt. 7-9-61
8. Notification No. 1(22)/62-M. II dt. 18-7-63
9. Notification No. 1(74)/75-M. VI dt. 2-5-79
10. Notification No. 1(3)/68-M. VI dt. 17-1-68
11. Notification No. 1(33)/67-M. VI (Vol. II) dt. 22-7-71
12. Notification No. M. II-169(44)/61 dt. 6-9-63
13. Notification No. 1(3)/71-M. VI dt. 6-9-71
14. Notification No. 1(51)/65-M. II dt. 26-2-69
15. Notification No. M. II-152(11)/62 dt. 6-5-63
16. Notification No. 3(51)/74-M. VI dt. 16-1-80
17. Notification No. M. II-152(58)/61 dt. 30-4-63
18. Notification No. M. II-152(33)/60 dt. 24-9-63
19. Notification No. 1(26)/66-M. VI dt. 4-3-67
20. Notification No. 7(4)/85-M. VI dt. 22-9-86
21. Notification No. 7(1)/86-M. VI dt. 10-2-87
22. Notification No. 19(9)/86-M. VI dt. 14-10-87
23. Notification No. 6(3)/87-M. VI dt. 21-12-87
24. Notification No. 7(2)/87-M. VI dt. 13-4-88
25. Notification No. 7(1)/89-M. VI dt. 19-10-89
26. Notification No. 7(1)/90-M. VI dt. 1-4-1991
27. Notification No. 7(3)/92-M. VI dt. 7-1-93
28. Notification No. 7(1)/93-M. VI dt. 30-3-94
29. Notification No. 1(7)/93-M. VI dt. 27-9-94

